

GENERAL APTITUDE

1. If the length and width of a rectangle are 15 cm and 13 cm, then find its area.

(A) 195 sq. m (B) 198 sq. cm

(C) 195 sq. cm (D) 198 sq. m

यदि किसी आयत की लम्बाई और चौड़ाई 15 सेमी और 13 सेमी हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ।

(A) 195 वर्ग मी (B) 198 वर्ग सेमी

(C) 195 वर्ग सेमी (D) 198 वर्ग मी

2. If $3^n - 3^{n-1} = 18$, then the value of n^n is :

(A) 3 (B) 8

(C) 27 (D) 216

यदि $3^n - 3^{n-1} = 18$ है, तो n^n का मान है :

(A) 3 (B) 8

(C) 27 (D) 216

3. Solve : $1\frac{4}{5} + 20 - 280 \div 25 = ?$

(A) $8\frac{1}{5}$ (B) $9\frac{1}{2}$

(C) $11\frac{1}{2}$ (D) $10\frac{3}{5}$

हल कीजिए : $1\frac{4}{5} + 20 - 280 \div 25 = ?$

- (A) $8\frac{1}{5}$ (B) $9\frac{1}{2}$
(C) $11\frac{1}{2}$ (D) $10\frac{3}{5}$

4. The present age of the son is half of the present age of his mother. Ten years ago, his mother's age was thrice the age of her son. What is the present age of the son ?

- (A) 20 years (B) 25 years
(C) 30 years (D) 40 years

पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की आधी है । दस वर्ष पहले, उसकी माँ की आयु उसके बेटे की आयु की तीन गुनी थी । पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ?

- (A) 20 वर्ष (B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष (D) 40 वर्ष

5. A man walking at the rate of 5 km/hr., crosses a bridge in 15 minutes. The length of the bridge (in meters) is :

- (A) 600 (B) 1000
(C) 1250 (D) 1500

एक आदमी 5 किमी/घंटा की गति से चल रहा है वह 15 मिनट में एक पुल को पार करता है । पुल की लम्बाई (मीटर में) है :

- (A) 600 (B) 1000
(C) 1250 (D) 1500

6. The square root of 0.0196 is :

- (A) 1.4 (B) 1.04
(C) 0.14 (D) 0.014

0.0196 का वर्गमूल है :

- (A) 1.4 (B) 1.04
(C) 0.14 (D) 0.014

7. If $x * y = (x + 3)^2 (y - 1)$, then the value of $5 * 4$ is :

- (A) 172 (B) 180
(C) 182 (D) 192

यदि $x * y = (x + 3)^2 (y - 1)$, तो $5 * 4$ का मान है :

- (A) 172 (B) 180
(C) 182 (D) 192

8. The cost price of an article is Rs. 7,840. What should be the selling price of the article so that there is a profit of 7% ?

- (A) Rs. 8,000 (B) Rs. 8,300
(C) Rs. 8,388.80 (D) Rs. 8,500.50

एक वस्तु का लागत मूल्य 7,840 रुपये है । वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 7% का लाभ हो ?

- (A) 8,000 रुपये (B) 8,300 रुपये
(C) 8,388.80 रुपये (D) 8,500.50 रुपये

9. The average of the first 10 perfect squares is :

- (A) 38.5 (B) 42.5
(C) 48.5 (D) 52.5

पहले 10 पूर्ण वर्गों का औसत है :

- (A) 38.5 (B) 42.5
(C) 48.5 (D) 52.5

10. Find the roots of the quadratic equation :

$$x^2 - 2x - 3 = 0.$$

- (A) - 3, 1 (B) 3, - 1
(C) - 3, - 1 (D) 3, 1

द्विघात समीकरण

$$x^2 - 2x - 3 = 0.$$

के मूल ज्ञात कीजिए :

- (A) - 3, 1 (B) 3, - 1
(C) - 3, - 1 (D) 3, 1

11. Fog : Visibility :: AIDS :

- (A) Health (B) Virus
(C) Resistance (D) Death

कोहरा : दृश्यता : : एड्स :

- (A) स्वास्थ्य (B) वायरस
(C) प्रतिरोध (D) मृत्यु

12. **Direction :** Read the following information carefully and answer the question given below :

Starting from point X, Jazzy walked 15 m towards the West. He turned left and walked 20 m. He then turned left and walked 15 m. After this, he turned to his right and walked 12 m.

In which direction is now Jazzy from X ?

- (A) East (B) West
(C) North (D) South

निर्देश : निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए :

बिंदु X से शुरू करके, जैजी पश्चिम की ओर 15 मीटर चला । वह बायीं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला । फिर वह बायीं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला । इसके बाद, वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला ।

अब जैजी X से किस दिशा में है ?

- (A) पूर्व (B) पश्चिम
(C) उत्तर (D) दक्षिण

13. **Direction :** Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series :

4, 8, 10, 14, 16, 20, ?

(A) 16 (B) 20

(C) 21 (D) 22

निर्देश : दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा :

4, 8, 10, 14, 16, 20, ?

(A) 16 (B) 20

(C) 21 (D) 22

14. Anil said to Nilesh, "That boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife." How is the boy playing football related to Anil ?

(A) Son (B) Brother

(C) Cousin (D) Brother-in-law

अनिल ने नीलेश से कहा, "फुटबॉल से खेलने वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से छोटा है ।" फुटबॉल खेलने वाला लड़का अनिल से किस प्रकार संबंधित है ?

(A) बेटा (B) भाई

(C) चचेरा भाई (D) बहनोई

15. If P means \times , R means $+$, T means \div and S means $-$, then $18 T 3 P 9 S 8 R 6 = ?$

(A) 46 (B) 48

(C) 50 (D) 52

यदि P का अर्थ \times , R का अर्थ $+$, T का अर्थ \div तथा S का अर्थ $-$ है, तो
 $18 T 3 P 9 S 8 R 6 = ?$

- (A) 46 (B) 48
 (C) 50 (D) 52

16. Find the missing term :



- (A) 330 (B) 336
 (C) 420 (D) 428

लुप्त पद ज्ञात कीजिए :



- (A) 330 (B) 336
 (C) 420 (D) 428

17. **Direction :** Study this question carefully and choose the right answer :

If 'CYCLONE' is coded as ONEMCYC, then what is the code for 'TSUNAMI' ?

- (A) SMTAIOU (B) AMITSOU
(C) AMIOTSU (D) MIATSOU


निर्देश : इस प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही उत्तर चुनिए :

यदि 'CYCLONE' को ONEMCYC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो 'TSUNAMI' को क्या कूट दिया जाएगा ?

- (A) SMTAIOU (B) AMITSOU
(C) AMIOTSU (D) MIATSOU

18. Find out which of the diagrams as given in the alternatives correctly represents the relationship stated below :


Boys, Students, Athletes



- (A) (a) (B) (b)
(C) (c) (D) (d)

ज्ञात कीजिए कि विकल्पों में दिए गए आरेखों में से कौनसा नीचे दिए गए संबंध को सही ढंग से दर्शाता है :

लड़के, छात्र, एथलीट



- (A) (a) (B) (b)
(C) (c) (D) (d)

19. In a row of girls, Sujata is 10th from the left and Namita is 9th from the right. If they interchange their positions, Sujata becomes 23rd from the left. How many girls are there in the row ?

- (A) 30 (B) 31
(C) 32 (D) 34

लड़कियों की एक पंक्ति में, सुजाता बाएँ से 10वें स्थान पर है और नमिता दाएँ से 9वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लें, तो सुजाता बाएँ से 23वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियाँ हैं ?

- (A) 30 (B) 31
(C) 32 (D) 34

20. Identify the figure that completes the pattern :



- (A) (1) (B) (2)
(C) (3) (D) (4)

उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है :



- (A) (1) (B) (2)
(C) (3) (D) (4)

GENERAL ENGLISH

21. Choose one of the following options that means the *opposite* of the given word :

IMPARTIAL

- (A) Hostile (B) Biased
(C) Dislike (D) Worried

22. Choose one of the following options that means *similar* to the given word :

DISTORT

- (A) Wrong (B) Evil
(C) Deform (D) Harm

23. Find the correctly spelt word :

- (A) Irelevant (B) Irrelevent
(C) Irelevent (D) Irrelevant

24. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given

sentence :

That which cannot be avoided

- (A) Inevitable (B) Irreparable
(C) Incomparable (D) Indisputable

25. In this question, four alternatives are given for the Idiom/Phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase as your answer :

Leaders should not only make speeches; they should also be prepared **to bell the cat**.

- (A) To take the lead in danger
- (B) To tie a bell to a cat's neck
- (C) To be alert of the enemy
- (D) To make noise

26. Fill in the blank with an appropriate preposition :

I was astonished.....the sad news.

- (A) to
- (B) at
- (C) with
- (D) in

27. Given below are four jumbled sentences. Select the option that gives their correct order :

P : They have no mind of their own.

Q : It is misleading to imagine that computers can think like humans.

R : However, they make it possible for people to accumulate thoughts.

S : They cannot do so.

- (A) QSPR
- (B) QPRS
- (C) PRQS
- (D) PQRS

28. In this question, a sentence given with blanks is to be filled in with an appropriate word(s). Choose the correct alternative out of the four :

She was so.....that she was.....by all.

- (A) proud : respected (B) excellent : warned
(C) talented : praised (D) stupid : admired

29. **Direction :** In this question, a sentence/part of the sentence is bold. Below are given alternatives to the bold sentence/part of the sentence which may improve the sentence. Choose the correct alternative :

Will you **lend me few rupees** in this hour of need ?

- (A) lend me any rupees
(B) borrow me a few rupees
(C) lend me a few rupees
(D) No improvement

30. Fill in the blank :

He is.....honest man.

- (A) an (B) a
(C) the (D) None of these

31. **Direction :** In this question, a sentence is given with a blank to be filled in with an appropriate word. Choose the correct alternative out of the four :

If you were found guilty of exceeding the speed limit, you.....to pay a fine.

- (A) would have (B) would had
(C) will have (D) have

32. A sentence has been given in direct form. Out of the four alternatives, choose the one that best expresses the same sentence in indirect form :

He said, "I shall try to bring you the books tomorrow".

- (A) He said that he would try to bring me the books tomorrow.
- (B) He said that he should try to bring me the books tomorrow.
- (C) He said that he would try to bring me the books the next day.
- (D) He said that he should try to bring me the books the next day.

33. Change the voice :

She answered fifty questions in one hour.

- (A) Fifty questions have been answered by her in one hour.
- (B) Fifty questions were being answered by her in one hour.
- (C) Fifty questions were answered by her in one hour.
- (D) Fifty questions are answered by her in one hour.

34. **Direction** : In this question, a sentence is divided into four parts. There is an error in one of the parts, which makes the sentence grammatically or contextually incorrect. Choose the option with the part containing error :

Everyone knows/that the leopard is/faster/of all animals.

- (A) Everyone knows
- (B) that the leopard is
- (C) faster
- (D) of all animals

35. **Instruction** : Choose the most appropriate adjective from the options to fill in the blank :

The once bustling marketplace was now a.....sight, with empty stalls and deserted streets.

- (A) vibrant
- (B) forlorn
- (C) boisterous
- (D) thriving

Direction (Q. Nos. 36 to 40) : Read the passage carefully and answer the following questions :

It is notable that power major NTPC has joined hands with oil giant IOC to set up a series of electric vehicle (EV) charging stations in cities and along highways. There is much potential for India to emerge as a leader in small and public EVs, given high latent demand. The benefits in reducing demand for imported crude oil can be huge, apart from reducing carbon emissions and other air pollutants. The most effective way to bring down carbon emissions and pollution from transport is to vastly expand and improve public transport—buses are just 2% of the vehicles on the road. That said, there is much scope to replace India's giant fleet of two-wheelers with electric bikes. India has over 170 million two-wheelers, and sales data from the last six years show that 79% of on-road vehicles here are two-wheelers. It would make perfect sense to boost the supply of EVs, especially two-wheelers, e-rickshaws, tempos and small cars, so as to complement and supplement public transport going forward. Estimates suggest that by meeting a rising part of the incremental demand for mobility, EVs can lead to macroeconomic benefits and sooner rather than later. Assuming only about half a litre of petrol consumption per two-wheeler daily, or about 200 litres annually, the volumes would add up to over 30 billion litres. And the bill for which, at current prices, would amount to well over Rs. 2 lakh crore. In tandem, we need power reforms to rev up utility realisations and strengthen the grid. India also has an opportunity to supply on-board electric batteries. Swapping services to provide charged batteries on the lease would step up the diffusion of EVs. A power-electronics industry ecosystem would raise production and provide high-efficiency subsystems for EVs. India must not miss the bus on EVs.

36. "There is much potential for India to emerge as a leader in small and public EVs, given high latent demand." What can be logically deduced from the given sentence ?

I. Electric vehicles are less in developed countries as compared to India.

II. India has not yet adopted electric vehicles fully.

III. Indians are already demanding a huge number of electric vehicles.

(A) Only III

(B) Only II

(C) Only I and III

(D) All of I, II and III

37. What is the tone of the passage ?

(A) Sarcastic

(B) Caustic

(C) Cynical

(D) Laudatory

38. What can be a suitable title for the given passage ?

(A) Future of electric vehicles

(B) Charging stations in cities

(C) Gear up for e-surge in buses and bikes

(D) Bring down carbon emissions

39. Which of the following words is the most similar in meaning to the given phrase ?

In tandem

(A) Tantalise

(B) Triode

(C) Together

(D) Trespass

40. Which of the following words is the most opposite in meaning to the given word ?

Complement

(A) Condemn

(B) Criticize

(C) Culminate

(D) Contrast

GENERAL HINDI

41. इनमें से कृष्णभक्त कवि कौनसे हैं ?
- (A) सूरदास (B) अग्रदास
(C) कबीरदास (D) रैदास
42. इनमें से 'उसने कहा था' कहानी के रचयिता कौन हैं ?
- (A) प्रेमचन्द
(B) जैनेन्द्र कुमार
(C) नलिनविलोचन शर्मा
(D) चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी'
43. इनमें से कौनसा शब्द भाववाचक संज्ञा है ?
- (A) गुच्छा (B) दल
(C) चाँदी (D) अपनापन
44. इनमें से कौनसा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ?
- (A) ममता (B) हिमालय
(C) गिरोह (D) पानी
45. इनमें से कौनसा शब्द पुल्लिङ्ग है ?
- (A) उपासना (B) सम्पदा
(C) सौभाग्य (D) सम्पत्ति

46. इनमें से कौनसा शब्द स्त्रीलिंग है ?

- (A) ऋतु (B) गृह
(C) ग्राम (D) वचन

47. इनमें से कौनसा शब्द तद्भव है ?

- (A) परीक्षा (B) वेदना
(C) आज्ञा (D) मुँह

48. इनमें से कौनसा शब्द बहुवचन है ?

- (A) हाथी (B) लता
(C) रातें (D) वार्ता

49. “वह घर से बाहर आया ।” इस वाक्य में कौनसे कारक के चिह्न का प्रयोग हुआ है ?

- (A) सम्बन्धकारक (B) अपादानकारक
(C) कर्ताकारक (D) सम्प्रदानकारक

50. इनमें से कौनसा शब्द अशुद्ध है ?

- (A) परमेश्वर (B) मरण
(C) रुग्ण (D) प्रसंशा

51. इनमें से कौनसा शब्द शुद्ध है ?

- (A) रामायण (B) वाल्मिकी
(C) विस्मरन (D) भाग्यमान

52. इनमें से कौनसा वाक्य शुद्ध है ?

- (A) राम ने चार बात सुनाई ।
- (B) चारों लड़कों के नाम बताओ ।
- (C) वह कई-कई दिनों से गायब है ।
- (D) वे अनेक कला जानते हैं ।

53. 'अक्ल बड़ी कि भैंस' लोकोक्ति का क्या अर्थ है ?

- (A) महामूर्ख होना
- (B) मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं
- (C) शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है
- (D) गुणों के विपरीत नाम

54. 'अक्ल के दुश्मन' मुहावरे का क्या अर्थ है ?

- (A) मदद करने से मना कर देना
- (B) घर में ही बैठे रहना
- (C) मूर्ख
- (D) जिद्दी

55. 'जो पहरा देता है' वाक्यखण्ड के लिए कौनसा एक शब्द सही है ?

- (A) प्रहरी
- (B) पतित
- (C) प्रवासी
- (D) पथप्रदर्शक

56. "जिसे ईश्वर या वेदों में विश्वास नहीं है" वाक्यखण्ड के लिए कौनसा एक शब्द सही है ?
- (A) अनाथ (B) जलज
(C) पार्थिव (D) नास्तिक
57. इनमें से कौनसा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है ?
- (A) कुछ (B) कौन
(C) तुम (D) कोई
58. 'विद्यार्थी' शब्द का सही संधि-विच्छेद क्या है ?
- (A) विद्य + अर्थी (B) विद्या + अर्थी
(C) विद्या + आर्थी (D) विद्यी + आर्थी
59. 'नदी' शब्द का पर्यायवाची शब्द कौनसा है ?
- (A) जलयान (B) सरिता
(C) जलपात्र (D) बेड़ा
60. 'अस्त' शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौनसा है ?
- (A) उदय (B) आदि
(C) प्राचीन (D) विगत

GENERAL KNOWLEDGE

61. In which district is Central University Haryana located ?

- (A) Rohtak (B) Kurukshetra
(C) Mahendragarh (D) Rewari

केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा किस जिले में स्थित है ?

- (A) रोहतक (B) कुरुक्षेत्र
(C) महेंद्रगढ़ (D) रेवाड़ी

62. Who was the first Chief Minister of Haryana ?

- (A) Pt. Bhagwat Dayal Sharma
(B) Chaudhary Devi Lal
(C) Chaudhary Bansi Lal
(D) Rao Virendra Singh

हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे ?

- (A) पं. भगवत दयाल शर्मा
(B) चौधरी देवीलाल
(C) चौधरी बंसी लाल
(D) राव वीरेंद्र सिंह

63. Which of the following is the largest rice-producing district of Haryana ?

- (A) Sirsa (B) Karnal
(C) Hisar (D) Panchkula

निम्नलिखित में से कौनसा हरियाणा का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला है ?

- (A) सिरसा (B) करनाल
(C) हिसार (D) पंचकुला

64. Where is Asia's largest sugar mill located ?

- (A) Karnataka (B) Uttar Pradesh
(C) West Bengal (D) Maharashtra

एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है ?

- (A) कर्नाटक (B) उत्तर प्रदेश
(C) पश्चिम बंगाल (D) महाराष्ट्र

65. When is 'National Youth Day' celebrated ?

- (A) 12 January (B) 9 January
(C) 15 January (D) 18 January

'राष्ट्रीय युवा दिवस' कब मनाया जाता है ?

- (A) 12 जनवरी (B) 9 जनवरी
(C) 15 जनवरी (D) 18 जनवरी

66. Which colour is at the bottom of the National Flag of India ?

- (A) White (B) Saffron
(C) Green (D) Red

भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे कौनसा रंग है ?

- (A) सफेद (B) केसरिया
(C) हरा (D) लाल

67. 'ODI' in Cricket stands for :

- (A) One Day International
(B) One Day Innings
(C) On Date Innings
(D) None of the above

क्रिकेट में 'ODI' का अर्थ है :

- (A) एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
(B) एक दिवसीय पारी
(C) ऑन डेट इनिंग्स
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. What is the minimum age eligibility to contest Panchayat elections ?

- (A) 25 years (B) 30 years
(C) 21 years (D) 18 years

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पात्रता क्या है ?

- (A) 25 वर्ष (B) 30 वर्ष
(C) 21 वर्ष (D) 18 वर्ष

69. Which of the following rivers is used for inland waterways ?

- (A) Luni (B) Mahi
(C) Ganga (D) Kaveri

निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है ?

- (A) लूनी (B) माही
(C) गंगा (D) कावेरी

70. 'Yellow revolution' is associated with which of the following ?

- (A) Production of paddy
(B) Production of tea
(C) Production of oilseeds
(D) Production of flowers

‘पीली क्रांति’ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ?

- (A) धान का उत्पादन
- (B) चाय का उत्पादन
- (C) तिलहन का उत्पादन
- (D) फूलों का उत्पादन

71. Which of the following missions was founded by Dayanand Saraswati ?

- (A) Arya Samaj
- (B) Prarthana Samaj
- (C) Brahmo Samaj
- (D) Chinmaya Mission

निम्नलिखित में से किस मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी ?

- (A) आर्य समाज
- (B) प्रार्थना समाज
- (C) ब्रह्म समाज
- (D) चिन्मय मिशन

72. Which of the following is the National Game of India ?

- (A) Kabaddi (B) Cricket
(C) Hockey (D) Kho-Kho

निम्नलिखित में से कौनसा भारत का राष्ट्रीय खेल है ?

- (A) कबड्डी (B) क्रिकेट
(C) हॉकी (D) खो-खो

73. 'Abolition of Untouchability' is mentioned in which of the following Articles ?

- (A) Article 20 (B) Article 19
(C) Article 18 (D) Article 17

'अस्पृश्यता उन्मूलन' का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है ?

- (A) अनुच्छेद 20 (B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 18 (D) अनुच्छेद 17

74. Who among the following is the First female President of India ?

- (A) Indira Gandhi
(B) Pratibha Devi Singh Patil
(C) Sarojini Naidu
(D) Draupadi Murmu

निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ?

- (A) इंदिरा गांधी
- (B) प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
- (C) सरोजिनी नायडू
- (D) द्रौपदी मुर्मू

75. The capital of Karnataka is :

- (A) Bengaluru
- (B) Mysore
- (C) Chennai
- (D) None of these

कर्नाटक की राजधानी है :

- (A) बेंगलुरु
- (B) मैसूर
- (C) चेन्नई
- (D) इनमें से कोई नहीं

76. Which of the following is an actor ?

- (A) Yogeshwar Dutt
- (B) Neeraj Chopra
- (C) Randeep Hooda
- (D) Shubman Gill

निम्नलिखित में से कौन एक अभिनेता है ?

- (A) योगेश्वर दत्त
- (B) नीरज चोपड़ा
- (C) रणदीप हुड्डा
- (D) शुभमन गिल

77. What was the real name of Swami Vivekananda ?

- (A) Bilendra Chandra Datta
- (B) Narendranath Datta
- (C) Narendra Kumar Datta
- (D) Bilendra Kumar Datta

स्वामी विवेकानन्द का वास्तविक नाम क्या था ?

- (A) बिलेंद्र चंद्र दत्त
- (B) नरेंद्रनाथ दत्त
- (C) नरेंद्र कुमार दत्त
- (D) बिलेंद्र कुमार दत्त

78. Where is the largest Harappan site found in India ?

- (A) Mitathal
- (B) Rakhigarhi
- (C) Siswal
- (D) Kunal

भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पाया गया है ?

- (A) मिताथल (B) राखीगढ़ी
(C) सीसवाल (D) कुणाल

79. Which scheme has been announced by the Haryana Government for the welfare of poor girls ?

- (A) Devi Rupak Scheme (B) Apni Beti Apna Dhan
(C) Bhagyodaya Scheme (D) Indira Saheli Scheme

हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की है ?

- (A) देवी रूपक योजना (B) अपनी बेटी अपना धन
(C) भाग्योदय योजना (D) इंदिरा सहेली योजना

80. What is the term used for the point on the Earth's surface directly above the location where an earthquake originates ?

- (A) Epicentre (B) Focus
(C) Fault (D) None of these

पृथ्वी की सतह पर उस स्थान के ठीक ऊपर स्थित बिंदु के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है ?

- (A) एपीसेंटर (B) फोकस
(C) फॉल्ट (D) इनमें से कोई नहीं

FUNDAMENTALS OF COMPUTERS

81. The term BUS is related to a :

- (A) Processor (B) Printer
(C) Keyboard (D) Monitor

BUS शब्द.....से संबंधित है ।

- (A) प्रोसेसर (B) प्रिंटर
(C) कीबोर्ड (D) मॉनिटर

82.is used to choose between incrementing the PC or performing ALU operations.

- (A) Conditional codes (B) Multiplexer
(C) Control unit (D) Compiler

.....का उपयोग पी.सी. को बढ़ाने या ए.एल.यू. संचालन करने के बीच चयन करने के लिए किया जाता है ।

- (A) सशर्त कोड (B) मल्टीप्लेक्सर
(C) नियंत्रण इकाई (D) कम्पाइलर

83. The registers, ALU and the interconnection between them are collectively called as :

- (A) process route (B) information trail
(C) information path (D) data path

रजिस्टर, ALU और उनके बीच के अंतर्संबंध को सामूहिक रूप से.....कहा जाता है ।

- (A) प्रक्रिया मार्ग (B) सूचना ट्रेल
(C) सूचना पाथ (D) डाटा पाथ

84. Monitor is a/an :

- (A) Output Device (B) Package Software
(C) Application Software (D) System Device

मॉनिटर एक.....है ।

- (A) आउटपुट डिवाइस (B) पैकेज सॉफ्टवेयर
(C) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (D) सिस्टम डिवाइस

85. OSS stands for :

- (A) Open System Service
(B) Open Source Software
(C) Open System Software
(D) Open Synchronized Software

ओ.एस.एस. का अर्थ है :

- (A) ओपन सिस्टम सेवा
(B) ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
(C) ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर
(D) ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर

86. What do you call a specific instruction designed to do a task ?

- (A) Command (B) Process
(C) Task (D) Instruction

किसी कार्य को करने के लिए बनाये गये विशिष्ट निर्देश को आप क्या कहते हैं ?

- (A) कमांड (B) प्रोसेस
(C) टास्क (D) इंस्ट्रक्शन

87. A.....is an application that allows the user to compose and edit simple documents.

- (A) Word processor (B) Spreadsheet
(C) e-Mail utility (D) Browsers

.....एक एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ता को सरल दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है ।

- (A) वर्ड प्रोसेसर (B) स्प्रेडशीट
(C) ई-मेल उपयोगिता (D) ब्राउजर

88. The rules that give meaning to the instructions :

- (A) Semantics (B) Syntax
(C) Code (D) Cases

निर्देशों को अर्थ देने वाले नियम :

- (A) शब्दार्थ (Semantics) (B) वाक्यविन्यास (Syntax)
(C) कोड (Code) (D) केसेज (Cases)

89. A digitizer converts.....input into digital input.

- (A) Laser (B) Digital
(C) Analog (D) Complex

एक डिजीटाइजर.....इनपुट को डिजिटल इनपुट में परिवर्तित करता है ।

- (A) लेजर (B) डिजीटल
(C) एनालॉग (D) कॉम्प्लेक्स

90. Which of the following terms is used when different forms of information like text, sound are converted to a binary code ?

- (A) Digitalization (B) Digitization
(C) Binarization (D) Digization

निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब पाठ, ध्वनि जैसी जानकारी के विभिन्न रूपों को बाइनरी कोड में परिवर्तित किया जाता है ?

- (A) डिजीटलाइजेशन (B) डिजीटाइजेशन
(C) बाइनरीजेशन (D) डिजीजेशन

91. Obtaining services from a rapidly evolving group of internet users is called :

- (A) Outsourcing
- (B) Crowd Sourcing
- (C) Human Collaboration
- (D) Human Computation

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के तेजी से विकसित हो रहे समूह से सेवाएँ प्राप्त करना..... कहलाता है ।

- (A) आउटसोर्सिंग
- (B) क्राउड सोर्सिंग
- (C) मानव सहयोग
- (D) मानव गणना

92. A computer that operates on digital data :

- (A) Remote
- (B) Hybrid
- (C) Analog
- (D) Digital

एक कम्प्यूटर जो डिजीटल डाटा पर काम करता है :

- (A) रिमोट
- (B) हाइब्रिड
- (C) एनालॉग
- (D) डिजीटल

93. This type of computer is mostly used for automatic operations :

- (A) Remote (B) Hybrid
(C) Analog (D) Digital

इस प्रकार के कम्प्यूटर का उपयोग अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए किया जाता है :

- (A) रिमोट (B) हाइब्रिड
(C) एनालॉग (D) डिजिटल

94. A term that defines the direction of flow of information between devices :

- (A) Interconnectivity
(B) Intraconnectivity
(C) Transmission mode
(D) Transmission

एक शब्द जो उपकरणों के बीच सूचना के प्रवाह की दिशा को परिभाषित करता है :

- (A) इंटरकनेक्टिविटी
(B) इंट्राकनेक्टिविटी
(C) ट्रांसमिशन मोड
(D) ट्रांसमिशन

95. Which of the following isn't related to Computer Network ?

- (A) Cache Memory (B) Physical Layer
(C) Full duplex (D) Half duplex

निम्नलिखित में से कौन कम्प्यूटर नेटवर्क से संबंधित नहीं है ?

- (A) कैश मेमोरी (B) भौतिक परत
(C) फुल डुप्लेक्स (D) हाफ डुप्लेक्स

96. Telephone networks operate in this mode :

- (A) simplex (B) half duplex
(C) full duplex (D) semi-duplex

टेलीफोन नेटवर्क इस मोड में काम करते हैं :

- (A) सिम्प्लेक्स (B) हाफ डुप्लेक्स
(C) फुल डुप्लेक्स (D) सेमी-डुप्लेक्स

97. Which of the following is *not* a data type ?

- (A) Symbolic Data
(B) Alphanumeric Data
(C) Numeric Data
(D) Alphabetic Data

निम्नलिखित में से कौनसा डाटा प्रकार नहीं है ?

- (A) प्रतीकात्मक डाटा
(B) अल्फान्यूमेरिक डाटा
(C) संख्यात्मक डाटा
(D) वर्णमाला क्रम में डाटा

98. What are the entities whose values can be changed called ?

- (A) Constants (B) Variables
(C) Modules (D) Tokens

वे इकाइयाँ क्या कहलाती हैं जिनके मूल्यों को बदला जा सकता है ?

- (A) स्थिरांक (B) चर
(C) मॉड्यूल (D) टोकन

99. Which of the following is *not* a keyword ?

- (A) Read (B) Write
(C) start (D) endif

निम्नलिखित में से कौनसा कीवर्ड नहीं है ?

- (A) Read (B) Write
(C) start (D) endif

100.is used to show hierarchy in a pseudo code.

- (A) Indentation (B) Curly Braces
(C) Round Brackets (D) Semicolon

.....का उपयोग छद्म कोड में पदानुक्रम दिखाने के लिए किया जाता है ।

- (A) इंडेंटेशन (B) कर्ली ब्रेसिज
(C) राउण्ड ब्रैकेट (D) सेमीकोलन

KEY-SET-D

GA		GE		HINDI		GK		FOC	
Q. No.	Ans	Q. No.	Ans	Q. No.	Ans	Q. No.	Ans	Q. No.	Ans
1	C	21	B	41	A	61	C	81	A
2	C	22	C	42	D	62	A	82	B
3	D	23	D	43	D	63	B	83	D
4	A	24	A	44	B	64	B	84	A
5	C	25	A	45	C	65	A	85	B
6	C	26	B	46	A	66	C	86	A
7	D	27	A	47	D	67	A	87	A
8	C	28	C	48	C	68	C	88	A
9	A	29	C	49	B	69	C	89	C
10	B	30	A	50	D	70	C	90	B
11	C	31	A	51	A	71	A	91	B
12	D	32	C	52	B	72	C	92	D
13	D	33	C	53	C	73	D	93	B
14	B	34	D	54	C	74	B	94	C
15	D	35	B	55	A	75	A	95	A
16	B	36	B	56	D	76	C	96	C
17	C	37	D	57	C	77	B	97	A
18	A	38	C	58	B	78	B	98	B
19	B	39	C	59	B	79	B	99	C
20	A	40	D	60	A	80	A	100	A